

प्रेस नोट - थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” में सार्वजनिक स्थान मार्ग एवं चौराहे पर विक्षिप्त अवस्था मे घूमने वाले बच्चे ,महिलाओं ,पुरुषो के सत्यापन में व श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 13.09.2021 को महावीर छपरा चौराहे पर एक व्यक्ति घुम रहा था उसको रोक कर पूछा गया तो उसने अपना नाम योगेन्द्र और गांव नरायनपुर बताया जो देखने में दिमागी हालत से ठीक नही था को थाने पर लाया गया। जनपद के सभी थाने व आस पास के जनपदो से व C-PLAN के तहत पता लगाया गया तो पता चला कि नरायनपुर गांव जनपद देवरिया के थाना गौरी बाजार में पड़ता है वहाँ के सम्भ्रान्त व्यक्तियो से जरिये दूरभाष सम्पर्क करके उसका नाम पूछा गया तो बताये कि योगेन्द्र मेरे ही गाँव का रहने वाला है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है । तथा इसके पिता का नाम हरि सिंह तथा इसके बाबा का नाम नन्दलाल सिंह है। योगेन्द्र के पिता का मोबाइल नम्बर प्राप्त कर उक्त मो0नं0 से सम्पर्क कर योगेन्द्र के पिता हरि सिंह से वार्ता किया गया तो बताये कि योगेन्द्र सिंह मेरे ही लड़के का नाम है जिसकी उम्र करीब 38 वर्ष है । जो 05 दिन पूर्व घर से बिना बताये कहीं चला गया था। जिसको काफी खोजा गया नही मिला। हमलोग काफी परेशान थे । प्र0नि0 बेलीपार द्वारा बताया गया कि आपका लड़का योगेन्द्र थाना बेलीपार पर बैठा है । यहा आकर अपने लड़के को ले जाइये । योगेन्द्र के पिता हरि सिंह अपने साथ अपने ही गाँव के रहने वाले महेन्द्र सिंह के साथ उपस्थित थाना आये लड़के की पहचान किये और लड़के योगेन्द्र सिंह द्वारा भी अपने पिता की पहचान करने पर योगेन्द्र के पिता हरि सिंह की सुपुर्दगी मे देकर थाना हाजा से रुकसत किया गया।

विक्षिप्त व्यक्ति का नाम –

योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरि सिंह उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम नरायनपुर थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया ।